

# FORTUNE INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED

Regd. Office:- 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001  
Tel. No.: 011-43585000, Fax: 011-43585015, E-mail: [firl.nbfc@gmail.com](mailto:firl.nbfc@gmail.com), Website: [www.firl.co.in](http://www.firl.co.in)  
CIN: L51503DL1986PLC024329

---

**Date:-6<sup>th</sup> September 2025**

**To**

**Metropolitan Stock Exchange of India Limited  
Listing Department,  
Unit 205A, 2nd Floor,  
Piramal Agastya Corporate Park,  
L.B.S Road, Kurla West,  
Mumbai-400 070**

**Scrip Code: FIRL**

**Subject: Newspaper Advertisement– for completion of dispatch of notice conveying the 39<sup>th</sup> Annual General Meeting (“AGM”) – Disclosure under regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir/Ma’am,

Pursuant to Regulation 30 read with schedule II Part A Para A and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find the enclosed copy of Newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Metro Media (Hindi) on 06<sup>th</sup> September, 2025 relating to completion of dispatch of notice conveying 39<sup>th</sup> Annual General Meeting (“AGM”) scheduled to be held on Sunday, 28<sup>th</sup> September, 2025 through VC/OAVM mode.

The above information is also available on the Company’s website <https://firl.co.in/>.

Kindly take the same into record for your further needful.

**Thanking You**

For **Fortune Industrial Resources Ltd**

**Nishant Goyal  
Whole-time Director  
DIN: 08153024**



**J&K Bank** **Jammu & Kashmir Bank Limited**  
 IMPAIRED ASSETS PORTFOLIO MANAGEMENT DEPARTMENT (IAPMD)  
 Zonal Office (Delhi) Plot No.132-134 Sector 44, Gurgaon (Haryana) India  
 GSTIN: 06AAACT6167G1ZB (T) 0124-4715800  
 Email: iapmd.del@jkbmail.com W: www.jkbank.com

### POSSESSION NOTICE

**Notice under Section 13 (4) of the SARFAESI ACT, 2002 read with Rule 8 (1) of the Security (Enforcement) Interest Rules, 2002**

Whereas Mr. Anil Bhat, as the Authorized Officer of the Jammu & Kashmir Bank Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 and in exercise of powers under section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice dated 02/06/2025 thereby calling upon the Borrower namely **Mrs Babita Singh & Mr Mohan Singh** to repay an amount of **Rs. 10,52,082.07 (Rupees Ten Lac Fifty Two Thousand Eighty Two Paise Seven only)** being the balance outstanding as on 29/05/2025 in the accounts no **0426265500000065** and **0426264380000001** of the Borrower, within 60 days from the date of the said notice together with the future interest and other charges thereon.

The said borrower having failed to repay the said amount, notice is hereby given to the said borrower in particular and the public in general that the undersigned being authorized officer of the J & K Bank Ltd. has taken possession of the mortgage property described herein below, in exercise of the powers conferred on me under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules, on this **1st day of month September of the year 2025**. The said borrower in particular and the public in general are hereby cautioned against dealing with the said property in any manner whatsoever and any dealings with the said property will be subject to the charge of the J&K Bank Limited for the amount in aggregating to **Rs. 9,88,013.07 DR. (Rupees Nine lacs Eighty Eight Thousand Thirteen and paise Seven)** together with future interest thereon from **01.09.2025** and other charges incurred or to be incurred. The borrowers attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

### Description of the Immovable Property

(As per the schedule provided in mortgage deed/latest particulars including any accreditations)

Equitable Mortgage of Residential DDA Janta Flat bearing No.C-680, on Third Floor, Pocket 11, situated at Jasola Vihar, New Delhi 110025 in the name of Mrs Babita Singh W/O Mr Mohan Singh

Date : 01.09.2025  
Place : New Delhi

Registered office Corporate Headquarters M.A.Road, Srinagar 190001 Kashmir, India T +91 (0)194 2481 930-35  
F +91 (0)194 248 1928 CIN: L65110JK1938SGC000048  
E info@jkbmail.com W www.jkbank.net

**Karnataka Bank Ltd.**  
 Your Family Bank. Across India.

Asset Recovery Management Branch  
 8-B, First Floor, Rajendra Park,  
 Pusa Road,  
 New Delhi-110 060

Phone : 011-40591567(Ext-240)  
 E-Mail : delhiarm@ktbank.com  
 Website : www.karnatakabank.com  
 CIN : L85110KA1924PLC001128

### SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY

**E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.**

Notice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured Creditor, the **Physical Possession** of which has been taken by the Authorised Officer of Karnataka Bank Ltd, the Secured Creditor on **17.10.2025**, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" on **17.10.2025**, for recovery of **Rs. 3,24,22,564.62 (Rupees Three Crore Twenty Four Lakhs Twenty Two Thousand Five Hundred Sixty Four and Paise Sixty Two only)** under PSDO Ac.No.548700060012801 with future interest from **01.04.2025**, plus cost, due to the Karnataka Bank Ltd, New Delhi-Shalimar Bagh, Aggarwal Plaza, First Floor, B.N Block (West), Shalimar Bagh, Delhi Pin-110088, the Secured creditor from (1) **M/s Rose Advertising Pvt. Ltd.**, Represented by its directors, a) **Mr. Bhagwan Dass Gupta**, b) **Mr. Mayank Sheel Jayant**, Registered Office: 3A, Shankar Gali Gobind Mohalla, Halderpur, Delhi-110088 (2) **Mr. Bhagwan Dass Gupta S/o Mr. Baboo Ram** addressed at: #BN-37, West Shalimar Bagh, Delhi-110088, (3) **Mr. Mayank Sheel Jayant S/o Mr. Om Prakash Jayant** addressed at: #House No.64A, Gautampuri, Phase 2, Badarpur, Delhi-110044, being borrowers/ guarantors/co-obligants.

### DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES:

All that part and parcel of Industrial property measuring 333 sq. yards with the Freehold rights, bearing Property No.3-A situated in Kharsa Nos. 205/26 & 211, Govind Mohalla, Village Halderpur, Delhi, with building constructed thereon, belonging to Mr. Bhagwan Dass Gupta. Boundaries: East: Plot No.3B West: Plot No.206 North: Other Plot South: Road Plot No.109 Reserve Price/Upset Price below which the property may not be sold: Rs.2,86,84,000.00 (Rupees Two Crore Eighty Six Lakh Eighty Four Thousand Only) Earnest money to be deposited/tendered: Rs.28,68,400.00 (Rupees Twenty Eight Lakhs Sixty Eight Thousand and Four Hundred Only)

(The borrower's / mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset).

(This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (1) of Rule (9) of Security Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors)

For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's Website i.e., [www.karnatakabank.com](http://www.karnatakabank.com) under the head "Mega E-Auction on 17.10.2025"

The E-auction will be conducted through portal <https://bankauctions.in/> on **17.10.2025 from 11:30 A.M to 12:30 P.M** with unlimited extension of 05 minutes. The intending bidder is required to register their name at <https://bankauctions.in/> and get the user Id and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on **16.10.2025**) from M/s.4closure, 605A, 6<sup>th</sup> Floor, Maitrivanam, Ameerpet, Hyderabad-500038, Contact No.040-23836405, Mobile 8142000809, E-mail: info@bankauctions.in

Date : 04.09.2025

Place : New Delhi

Sd/- For Karnataka Bank Ltd  
 Chief Manager & Authorised Officer

**TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED**  
 CIN No. : L93000DL1988PLC031953  
 REGD OFF: A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK II, New Delhi-110019  
 Ph: 011-40562329.  
 Website: [www.trinitygroup.ind.in](http://www.trinitygroup.ind.in); E-mail: [trinityleague@trinitygroup.ind.in](mailto:trinityleague@trinitygroup.ind.in)

### Notice of the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM)

It is hereby informed that the Thirty-Seventh Annual General Meeting (37<sup>th</sup> AGM) of Trinity League India Limited will be held on Tuesday, the 30<sup>th</sup> day of September, 2025 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business, as set out in the Notice of the AGM, through e-voting facility only.

The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Ministry of Corporate Affairs Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 and SEBI Circulars. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/NSDL (Depositories) and will also be available on the Company's website [www.trinitygroup.ind.in](http://www.trinitygroup.ind.in) and website of the Bombay Stock Exchange i.e. at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

Members who have not registered their e-mail addresses and in consequence the Annual Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, by sending mail on [investor@beetalfinancial.com](mailto:investor@beetalfinancial.com) for the same along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

The remote e-voting period will commence from 27<sup>th</sup> September, 2025 at 10:00 am and will end at 5:00 pm on 29<sup>th</sup> September, 2025. During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 29, 2025. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Tuesday, September 23, 2025. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to [investor@beetalfinancial.com](mailto:investor@beetalfinancial.com) to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of AGM.

Members holding shares in electronic form are requested to intimate any change in their bank mandates to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. The Members holding shares in physical form are requested to advise any change in their bank mandate immediately to Beetal House, 3<sup>rd</sup> Floor 99 Madangiri, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukdas Mandir, New Delhi-110062.

By Order of the Board of Directors of  
 Trinity League India Limited

Sd/-  
 Place: New Delhi  
 Date : September 05, 2025

Gaurav Bajpai  
 Company Secretary & Compliance Officer

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**SUPERIOR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED**  
 Regd. Office:- 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001  
 CIN: L15142DL1991PLC046489, Tel. No.: 011-43585000, Fax: 0141-43585015  
 E-mail : [info@superiorindustrial.in](mailto:info@superiorindustrial.in) Website: [www.superiorindustrial.in](http://www.superiorindustrial.in)

### INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 34<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Superior Industrial Enterprises Limited will be held on Sunday, September 28, 2025 at 12:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 2024-25 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM along with the aforesaid Annual Report on September 5th, 2025.

The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (in respect of shares held in demat form) or with Mas Services Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company (in respect of shares held in physical form).

Members are hereby informed that the notice of the 34th AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website ([www.superiorindustrial.in](http://www.superiorindustrial.in)). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the relevant rules made thereunder, as amended from time to time, along with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the aforesaid Circulars, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast their votes electronically on the resolutions to be passed at the 34th AGM. The Members are further informed that the cut-off date for the purpose of ascertaining the members eligible for e-voting facility has been fixed as Sunday, September 21, 2025. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM.

The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Thursday, September 25, 2025 at 9:00 a.m. and will remain open upto Saturday, September 27, 2025 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again during AGM.

The Company has appointed M/s RSH & Associates, Practicing Company Secretary, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The detailed procedure/ instructions for remote e-voting, attending AGM and e-voting during AGM are contained in the Notice of 34th AGM.

The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the e-voting website of NSDL: [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Ms. Muskaan Suhag, Company Secretary, e-mail address: [info@superiorindustrial.in](mailto:info@superiorindustrial.in). Address: 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi 110001, Contact No.: 011-43585000.

Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through e-mail but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VC/ OAVM. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a request for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM through e-mail communication to RTA at [investor@masserv.com](mailto:investor@masserv.com) with a copy marked to the Company at [info@superiorindustrial.in](mailto:info@superiorindustrial.in) along with his/her relevant particulars i.e. DP ID & Client ID/ Folio No. to obtain User Id and Password for e-voting. If shareholder is an individual shareholder and holds shares in demat mode he/she can generate password as explained in e-voting instructions. Since the 34th AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC/ OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, September 22, 2025 to Sunday, September 28, 2025 (both days inclusive)** for the purpose of 34<sup>th</sup> AGM.

By order of the Board of Directors  
 For Superior Industrial Enterprises Limited  
 Sd/-  
 Company Secretary & Compliance Officer

Date : September 06<sup>th</sup>, 2025

Place : New Delhi

(Muskaan Suhag)

### Classifieds

#### PERSONAL

It is for general information that I, PRAVESH KUMAR, S/o-Ashok Kumar Verma, R/o-A-2/485, Nand Nagri East, Delhi-110093, declare that name of mine has been wrongly written as Pravesh Verma in my minor son namely Saksham Verma age-15 years in his school records. The actual name of mine is Pravesh Kumar, Which may be amended accordingly.

0040810105-6

I, Tamanna D/o Raj Kumar Bhardwaj R/o F401, East Evenue Apartment, Sec-73, Noida have changed my name to Tamanna Bhardwaj.

0070988476-1

I, R.K.Bhardwaj S/o Satish Chand Bhardwaj R/o F401, East Evenue Apartment, Sec-73, Noida have changed my name to Raj Kumar Bhardwaj.

0070988477-1

### PUBLIC NOTICE

Ms. Neha Jaiswal w/o Mr. Shubham Jaiswal (Applicant) has applied for a purchase loan to our client ICICI HFC Ltd., Branch Model town, Delhi by mortgage of property i.e., Entire Second Floor (Without Roof Rights) built on Property No. 14/1, part of Rect. No. 45, Killa No. 71/1, 7/2 and 7/3, at Village Khureji Khias, East Gurgaon Nagar, Village Shalindara, Delhi-110051, measuring 49.55 Sq. Yd. approx. Mrs. Kamla Devi and Mr. Gokul Singh mutually sub-divided the Property and now Mrs. Kamla Devi only shall execute the Sale Deed to the Applicant and Mr. Gokul Singh has no objection regarding this transaction. If any one has objections, then contact with proof within 7 days, after that no objections will be accepted.

Kavik Kumar Gola, Advocate for LEGAL ASSOCIATES: 0-3/4-1, Dishaad Garden, Delhi-95, (+91 7011604304)

For Linaks Micro Electronics Limited  
 Regd. Office: 12.6 KM Barabanki Road, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh - 227105  
 Email: [linakspcb@yahoo.com](mailto:linakspcb@yahoo.com); Website: [www.linaks.in](http://www.linaks.in)  
 CIN: L32011UP1986PLC007841

### NOTICE OF 40<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

1. NOTICE is hereby given that the 40<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> Day of September, 2025 at 03:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with General Circular No.14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 02<sup>nd</sup> September, 2025.

2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2024-25 have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) and letter to those members whose e-mail address is not registered with Company/ Depository Participant providing the exact web-link of Company's website from where the Annual Report for financial year 2024-25 can be accessed.

3. Pursuant to provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company has provided electronic voting facility for transacting all the business(es) items as mentioned in Notice of the 40<sup>th</sup> Annual General Meeting through e-voting facility on the platform of National Securities Depository Limited (NSDL). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The remote e-voting facility shall commence on Saturday, 27<sup>th</sup> September, 2025 at 09:00 A.M. and will end on Monday, 29<sup>th</sup> September, 2025 at 5:00 P.M. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

4. A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. Tuesday, 23<sup>rd</sup> September, 2025 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.

5. Any person who has acquired shares and becomes member of the Company after dispatch of notice may obtain the user id and password for remote e-voting from the Company's Registrar & Transfer agents, M/s. Beetal Financial & Computer Services Private Limited, 3rd Floor, Beetal House, 99, behind Local Shopping Centre, Madangiri Village, Madangiri, New Delhi, Delhi 110062. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website [www.linaks.in](http://www.linaks.in), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

6. The result of e-voting shall be announced on or after the Annual General Meeting of the Company. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website, besides being communicated to the Stock Exchange(s).

7. The Board of Directors of the Company have appointed M/s PK. Mishra and Associates, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting voting process in a fair and transparent manner.

8. The Notice and Annual Report of the Company is posted on the website of the Company i.e. [www.linaks.in](http://www.linaks.in). In case you have queries or issues regarding attending AGM and e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the download section of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact Mr. Nitin Singh Mahala, official of NSDL at 022 - 4866 7000 and 022 - 2499 7000. Members may also write to Company Secretary at [linakspcb@yahoo.com](mailto:linakspcb@yahoo.com).

For Linaks Micro Electronics Limited  
 Sd/-  
 Bhumika Mittal  
 (Company Secretary)  
 M. NO. ACS 63808

Place: New Delhi

Date: 05.09.2025

**J&K Bank** **Jammu & Kashmir Bank Limited**  
 IMPAIRED ASSETS PORTFOLIO MANAGEMENT DEPARTMENT (IAPMD)  
 Zonal Office (Delhi) Plot No.132-134 Sector 44, Gurgaon (Haryana) India  
 GSTIN: 06AAACT6167G1ZB (T) 0124-4715800  
 Email: iapmd.del@jkbmail.com W: www.jkbank.com

### POSSESSION NOTICE

**Notice under Section 13 (4) of the SARFAESI ACT, 2002 read with Rule 8 (1) of the Security (Enforcement) Interest Rules, 2002**

Whereas Mr. Anil Bhat, as the Authorized Officer of the Jammu & Kashmir Bank Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 and in exercise of powers under section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice dated 02/06/2025 thereby calling upon the Borrower namely **Mrs Babita Singh W/O Mr Mohan Singh and Mr Mohan Singh S/O Sh Rajdev Singh** to repay an amount of **Rs. 12,55,143.47 (Rupees Twelve Lacs Fifty Five Thousand One Hundred Forty Three and Paise Forty Seven only)** being the balance outstanding as on 29/05/2025 in the accounts Number **0426265500000067** and **0426264380000002** of the Borrower, within 60 days from the date of the said notice together with the future interest and other charges thereon.

The said borrower having failed to repay the said amount, notice is hereby given to the said borrower in particular and the public in general that the undersigned being authorized officer of the J & K Bank Ltd. has taken possession of the mortgage property described herein below, in exercise of the powers conferred on me under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules, on this **1st day of month September of the year 2025**.

The said borrower in particular and the public in general are hereby cautioned against dealing with the said property in any manner whatsoever and any dealings with the said property will be subject to the charge of the J&K Bank Limited for the amount in aggregating to **Rs. 11,25,951.16 Dr (Rupees Eleven lac Twenty Five Thousand Nine Hundred Fifty One and Paise Sixteen)** together with future interest thereon from **01/09/2025** and other charges incurred or to be incurred.

The borrowers attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

### Description of the Immovable Property

(As per the schedule provided in mortgage deed/latest particulars including any accreditations)

Equitable Mortgage of Residential DDA Janta Flat bearing No 688 on Third Floor, Block-C, Pocket 11, situated at Jasola Vihar New Delhi in the name of Mrs Babita Singh W/O Mohan Singh

Date : 01.09.2025  
Place : New Delhi

Registered office Corporate Headquarters M.A.Road, Srinagar 190001 Kashmir, India T +91 (0)194 2481 930-35  
F +91 (0)194 248 1928 CIN: L65110JK1938SGC000048  
E info@jkbmail.com W www.jkbank.net

**Karnataka Bank Ltd.**  
 Your Family Bank. Across India.

Asset Recovery Management Branch  
 8-B, First Floor, Rajendra Park,  
 Pusa Road,  
 New Delhi-110 060

Phone : 011-40591567(Ext-240)  
 E-Mail : delhiarm@ktbank.com  
 Website : www.karnatakabank.com  
 CIN : L85110KA1924PLC001128

### SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY

**E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.**

Notice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged /charged to the secured Creditors, the **Physical Possession** of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditors on **18.03.2023**, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" on **17.10.2025**, for recovery of aggregate amount being **Rs. 15,74,047.65 (Rupees Fifteen Lakh Seventy Four Thousand Forty Seven and Paise Fifty Four Only)** on i.e. under PSTL Loan Account No.5537001800013501 along with future interest from **07.12.2023**, Plus Costs, due to the Karnataka Bank Ltd New Delhi G T Karnal Road Branch, No-6 (Jain Colony) Veer Nagar, GT Karnal Road Delhi 110007, the Secured creditors from (1) **Mr. Ravinder Kumar Maurya S/o Mr. L N Murya** (2) **Mrs. Shashi Bala W/o Mr. Ravinder Kumar Maurya**, both (1) and (2) are residing at: #A-165, First Floor, Nand Ram Park, Uttam Nagar, Delhi-110059, Also at: Plot No. O-162, Geeta Enclave, Vani Vihar, Uttam Nagar, Delhi-110059 (3) **Mr. Dheeraj Kumar S/o Mr. Narendar Kumar**, #219, Block-O, Geeta Enclave, Delhi-110059, being borrowers/ guarantors/co-obligants.

### DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES:

All that Part and Parcel of Residential Property situated at House No. A-165, First Floor, Nand Ram Park, Uttam Nagar, Delhi-110059, belonging to Mr. Ravinder Kumar Maurya. Boundaries: East: Property No. A-164 West: Property No. A-166 North: Other's Property South: Gali & Than A-174



## उमर खालिद के मामले में अन्याय हुआ: सिब्बल

नई दिल्ली, एजेंसी।

राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत देने से इनकार किए जाने के कुछ दिन बाद शुक्रवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया है और हम इस अन्याय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, जहां राजनीतिक दल यह सोचकर ऐसे मुद्दे नहीं उठा रहे हैं कि इससे उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है।

सिब्बल ने कहा, लगता है कि हम सही काम नहीं करना चाहते और आवाज नहीं उठाना चाहते। हमारे वकील, मध्यम वर्ग और समाज चुप है। खालिद के वकील द्वारा कम से कम सात बार मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांगे किए जाने संबंधी पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की कथित टिप्पणी को लेकर सिब्बल ने कहा कि जब मामला उच्चतम न्यायालय में था, तब बचाव पक्ष ने केवल दो बार स्थगन मांगा था। उनका कहना था, अगर अदालत वर्षों तक फेसला नहीं सुनाती, तो क्या इसके लिए वकीलों को दोषी ठहराया जाना चाहिए? अदालत का यही हाल है।

## हजरत बल दरगाह में अशोक प्रतीक चिन्ह को लेकर जबरदस्त सियासत शुरू

सतीश वर्मा

**जम्मू,मेट्रो मीडिया।** श्रीनगर की डल झील के उत्तरी इलाके में स्थित विश्वविख्यात हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ को लेकर जबरदस्त विवाद तथा सियासत शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डा. दक्खा अंदराबी ने दरगाह हजरतबल में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हा अशोक स्तंभ को तोड़े जाने की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह से विधायक समेत अन्य दोषियों के खिलाफ फिर दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की माग की है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत आघात मानते हुए कहा कि जब मैंने राष्ट्रीय प्रतीक को नष्ट होते देखा तो मुझे लगा कि जैसे मुझ पर बदल फट गया हो। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दरगाह



हजरतबल में वक्फ बोर्ड की ओर से जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था, जिसका मकसद दरगाह की पवित्रता और लोगों में विश्वास बढ़ता था।

उन्होंने कहा कि इसी दौरान एक पार्टी विशेष के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने वहां अशोक स्तंभ को तोड़ दिया। दरगाहें इबादत और सम्मान की जगह होती है, यहां पर किसी को भी सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस दरगाह और मुस्लिम समुदाय की

## अमृतसर में मंदिर पर बम फेंकने में वांटेड आतंकवादी गिरफ्तार

इंद्र वशिष्ठ

**नई दिल्ली, मेट्रो मीडिया।** एनआईए ने अमृतसर में मंदिर पर बम से हमले के मामले में वांटेड आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। एनआईए के अनुसार पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला के कादियां, भैणी बांगड गांव निवासी शरणजीत कुमार उर्फ सनी को शुक्रवार को बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया। आरोपी 14-15 मार्च की दरमियानी रात खंडवाला इलाके में ठाकुर द्वारा मंदिर पर आतंकवादी हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया। बाइक सवार हमलावरों गुरसिदक सिंह और विशाल गिल ने मंदिर पर हथगोला



फेंका था। उन्होंने अपने विदेशी आकाओं के निर्देशों पर आतंकी हमला किया था।

एनआईए की जांच में यूरोप, अमेरिका और कनाडा में मौजूद आतंकियों के आकाओं द्वारा रची गई साजिश का खुलासा हुआ। आकाओं ने भारत में अपने सक्रिय साथियों को आतंकी उपकरण, धन, रसद सहायता और टारगेट के डिटेल दिए थे।

## देश के शिक्षकों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए: मुर्मू

नई दिल्ली, एजेंसी।

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने शुक्रवार को शिक्षक दिवस पर यहां एक समारोह में देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये। श्रीमती मुमुं ने इस मौके पर कहा कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति के सम्मान और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। समझदार शिक्षक बच्चों में सम्मान और सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने वक्त को याद किया और उस समय को अपने जीवन का एक बहुत ही सार्थक काल बताया।

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है। शिक्षा की शक्ति से गरीब से गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे भी उन्नति के आसमान को छू सकते हैं। बच्चों की उड़ान को बल देने में स्नेही और समर्पित शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थी उन्हें जीवन भर याद रखें और परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दें।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है। नैतिक आचरण का पालन करने वाले संवेदनशील, जिम्मेदार और समर्पित विद्यार्थी उन विद्यार्थियों से बेहतर होते हैं, जो केवल प्रतिस्पर्धा, किताबी ज्ञान और स्वार्थ में रूचि रखते हैं। एक अच्छे शिक्षक में भावनाएं और बुद्धि दोनों होती हैं। भावनाओं और बुद्धि का समन्वय विद्यार्थियों पर भी प्रभाव डालता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि स्मार्ट ब्लैकबोर्ड, स्मार्ट कक्षाएं और अन्य आधुनिक सुविधाओं का अपना



महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, स्मार्ट शिक्षक। उन्होंने कहा कि स्मार्ट शिक्षक वे शिक्षक होते हैं जो अपने विद्यार्थियों के विकास की आवश्यकताओं को समझते हैं। स्मार्ट शिक्षक स्नेह और संवेदनशीलता के साथ अध्ययन की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाते हैं।

ऐसे शिक्षक छात्रों को समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा में निवेश करके, हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में एक अमूल्य निवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान करना महिला-नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के विस्तार और विंशत वर्ग की बालिकाओं को विशेष शिक्षा सुविधायें प्रदान करने पर जोर देती है, लेकिन शिक्षा से जुड़ी किसी भी पहल की सफलता मुख्यतः शिक्षकों पर निर्भर करती है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे बालिकाओं की शिक्षा में जितना

## देश के 24 शहरों में 1066 किलोमीटर मेट्रो सेवा उपलब्ध: मनोहर लाल

गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का भूमि पूजन शुक्रवार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर में हुआ

**मोहम्मद अफसर**

**गुरुग्राम,मेट्रो मीडिया।** केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देश में मेट्रो सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और वर्ष 2014 तक केवल पांच शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो सेवा उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर 24 शहरों में 1066 किलोमीटर हो चुकी है। मनोहर लाल ने यहां गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि इसके अतिरिक्त 970 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क निर्माणाधीन है, जिसके पूरा

होने पर भारत विश्व में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क प्रदान करने वाला देश बन जायेगा।

गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का भूमि पूजन शुक्रवार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में हुआ। कार्यक्रम सेक्टर 44 में करीब 5500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर का भूमि पूजन किया गया। यह कॉरिडोर मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी होते हुए द्वारका एक्सप्रेस-वे तक विस्तारित होगा, तथा इसमें 27 स्टेशन बनाये जायेंगे। यह मेट्रो सेवा नये और पुराने



गुरुग्राम को जोड़ने के साथ-साथ नागरिकों के लिए सुविधाजनक और समय की बचत करने वाला विकल्प बनेगी। मनोहर लाल ने कहा कि इस परियोजना से गुरुग्राम में जाम की समस्या कम होगी, प्रदूषण घटेगा

तथा आवागमन में आसानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि शहरी मंत्रालय द्वारा देशभर में 10 हजार नयी बसें रियायती दरों पर उपलब्ध करायी जायेंगी, जिनमें से 450 बसें हरियाणा को मिलेंगी तथा

## राज्य सरकार चुनाव आयोग को दरकिनार नहीं कर सकती: अठावले

**बेंगलुरु, एजेंसी।**

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने आगामी पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय मतपत्रों से कराने की सिफारिश की है जिससे राज्य में राजनीति गरमा गयी है।

इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार के कदम की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग (ईसीआई) के अधिकार को दरकिनार करना है। अठावले ने कहा, अगर वोटों की चोरी हो रही है तो आप चुनाव आयोग के पास जाएं।

मै राज्य सरकार द्वारा नगर निगम चुनाव बलेट पेपर से कराने

की घोषणा से पूरी तरह असहमत हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही ईवीएम मशीन लेकर आयी थी। हमें बलेट पेपर पर भी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन राज्य सरकार को शायद यह अधिकार प्राप्त नहीं है और उसे चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जब आपकी पार्टी 60-70 साल तक सत्ता में थी तब क्या वोट चोरी नहीं हो रही थी?

लोकसभा चुनावों में श्री गांधी ने ईवीएम में हेराफेरी का बार-बार आरोप लगाया था जिसके बाद बलेट बनाम ईवीएम की बहस छिड़ गयी थी।

## शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है राजस्थान सरकार: शर्मा

**जयपुर,एजेंसी।** राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों के कल्याण, सम्मान व बेहतर कार्यदर्शा तथा विद्यार्थियों के उत्कृष्ट भविष्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। शर्मा ने यहां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, जो समाज का भविष्य बनाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक जीवन के शिल्पकार तथा राष्ट्र निर्माता हैं और राज्य सरकार शिक्षकों के साथ है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए हैं।

## धर्मस्थल मामले की जांच एसआईटी कर रही: सिद्धरमैया

**बेंगलुरु,एजेंसी।**

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ‘धर्मस्थल’ में कई हत्याओं, बलात्कार और शवों को दफनाने के आरोपों की राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) से जांच कराने की मांग को तबजो नहीं देते हुए शुक्रवार को कहा कि मामले की जांच राज्य पुलिस पहले से ही एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के जरिये कर रही है।

मुख्यमंत्री, हिंदू और जैन संतों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मामले की एनआईए जांच कराने की मांग के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। सिद्धरमैया ने कहा, हमने एसआईटी गठित की है, वे पुलिस हैं। एनआईए में कौन है? वे भी पुलिस हैं। राज्य में विपक्षी भाजपा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ‘धर्मस्थल’ में कई हत्याओं, बलात्कार और शवों को दफनाने के आरोपों की राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) से जांच कराने की मांग को तबजो नहीं देते हुए शुक्रवार को कहा कि मामले की जांच राज्य पुलिस पहले से ही एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के जरिये कर रही है।



जद(एस) ने भी मामले से निपटने के तरीके को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए एनआईए जांच की मांग की है। उन्होंने धर्मस्थल और स्थानीय हिंदू मंदिर को बदनाम करने वाले अभियान के पीछे साजिश होने का आरोप लगाया। विवाद उस वक्त शुरू हुआ, जब एक शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने पिछले दो

दशकों में धर्मस्थल में कई शवों को दफनाया है, जिनमें यौन उत्पीड़न की गई महिलाएं भी शामिल हैं और इसके पीछे स्थानीय मंदिर के प्रशासकों की भूमिका होने की ओर इशारा किया गया। शिकायतकर्ता की बाद में पहचान सी एन चिन्नेया के रूप में हुई और उसे झूठी गवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने नेत्रवती नदी के किनारे वन क्षेत्रों में शिकायतकर्ता द्वारा चिह्नित कई स्थानों पर तलाशी आरंभ चलाया और खुदाई की, जहां दो स्थानों पर मानव कंकाल के अवशेष बरामद किये गए।

<p><b>SUPERIOR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED</b></p> <p><b>Regd. Office:-</b> 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi- 110001</p> <p><b>CIN:</b> L15142DL1999PLC046489, <b>Tel. No.:</b> 011-43585000, <b>Fax:</b> 0141-43585015</p> <p><b>E-mail:-</b> <a href="mailto:info@superiorindustrial.in">info@superiorindustrial.in</a> <b>Website:-</b> <a href="http://www.superiorindustrial.in">www.superiorindustrial.in</a></p> <p><b>INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 34<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING</b></p> <p>Notice is hereby given that the <b>34<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM")</b> of the Members of <b>Superior Industrial Enterprises Limited</b> will be held on <b>Sunday, September 28, 2025 at 12:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")</b> to transact the businesses as stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 2024-25 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM alongwith the aforesaid Annual Report on September 5th, 2025.</p> <p>The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (in respect of shares held in demat form) or with Mas Services Limited, Registrar &amp; Share Transfer Agent (RTA) of the Company (in respect of shares held in physical form).</p> <p>Members are hereby informed that the notice of the 34th AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website (<a href="http://www.superiorindustrial.in">www.superiorindustrial.in</a>). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>.</p> <p>Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the relevant rules made thereunder, as amended from time to time, along with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the aforesaid Circulars, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast their votes electronically on the resolutions to be passed at the 34th AGM. The Members are further informed that the cut-off date for the purpose of ascertaining the members eligible for e-voting facility has been fixed as Sunday, September 21, 2025. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM.</p> <p>The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Thursday, September 25, 2025 at 9:00 a.m. and will remain open upto Saturday, September 27, 2025 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/ she/ it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again during AGM.</p> <p>The Company has appointed M/s RSH &amp; Associates, Practicing Company Secretary, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.</p> <p>The detailed procedure/ instructions for remote e-voting, attending AGM and e-voting during AGM are contained in the Notice of 34th AGM.</p> <p>The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the e-voting website of NSDL- <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a>.</p> <p>Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Ms. Muskaan Suhaag, Company Secretary, e-mail address: <a href="mailto:info@superiorindustrial.in">info@superiorindustrial.in</a>. Address: 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi 110001, Contact No.: 011-43585000.</p> <p>Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through e-mail but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VCI/ OAVM. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM through e-mail communication to RTA at <a href="mailto:investor@masserv.com">investor@masserv.com</a> with a copy marked to the Company at <a href="mailto:frl.nbfco@gmail.com">frl.nbfco@gmail.com</a> alongwith his/ her/ its relevant particulars i.e. DP ID &amp; Client ID/ Folio No. to obtain User Id and Password for e-voting. If shareholder is an individual shareholder and holds shares in demat mode he/she can generate password as explained in e-voting instructions.</p> <p>Since the 34th AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC/ OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available.</p> <p>Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from <b>Monday, September 22, 2025 to Sunday, September 28, 2025 (both days inclusive)</b> for the purpose of 34<sup>th</sup> AGM.</p> <p><b>By order of the Board of Directors</b> <b>For Superior Industrial Enterprises Limited</b></p> <p><b>Sd/-</b> <b>(Muskaan Suhaag)</b> <b>Company Secretary &amp; Compliance Officer</b></p> <p><b>Date : September 06<sup>th</sup>, 2025</b> <b>Place : New Delhi</b></p>	<p><b>KCL Limited</b></p> <p><b>CIN:</b> L74899DL1983PLC068008</p> <p><b>Regd. Office:</b> E-292, Santia Vihar, New Delhi-110044.</p> <p><b>NOTICE OF 42<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE</b></p> <p>Notice is hereby given that:</p> <p>1. The 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Monday, 28<sup>th</sup> day of September, 2025 at 09:00 A.M. at the Registered Office of the Company situated at E-292, Santia Vihar, New Delhi-110044 to transact the business as set forth in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars").</p> <p>2. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") the Company is providing its members the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such voting, on all the resolutions set forth in the Notice of AGM.</p> <p>3. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 of the Company has been sent to all the members, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s), as on the cut-off date i.e., 29<sup>th</sup> August 2025. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available and can be downloaded from the website of the Company <a href="http://www.kcl.co.in/investor/">www.kcl.co.in/investor/</a>.</p> <p>4. The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by NSDL (National Securities Depository Limited) and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on 28<sup>th</sup> September, 2025 at 9:00 A.M and ends on 28<sup>th</sup> September, 2025 at 5:00 P.M. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22<sup>nd</sup> September 2025, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through in person shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.</p> <p>5. Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2024-25 along with AGM Notice by email to <a href="mailto:cs@kcl.co.in">cs@kcl.co.in</a></p> <p>6. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 23<sup>rd</sup> September 2025 to Monday, 29<sup>th</sup> September, 2025 (both days inclusive).</p> <p>7. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 sent to members in accordance with the applicable provisions in due course.</p> <p><b>For KCL Limited</b> <b>Sd/-</b> <b>Rohit Johari</b> <b>Company Secretary</b> <b>M. No. A65873</b></p> <p><b>Place:</b> Faridabad <b>Date:</b> 06<sup>th</sup> September, 2025</p>
--	---

100 बसें विशेष रूप से गुरुग्राम को दी जायेंगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी ने इस मौके पर कहा कि यह दिन गुरुग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि परियोजना चार वर्षों में पूर्ण होगी और सुभाष चोक, हीरो हॉंडा चोक, पालम बिहार, उद्योग बिहार तथा रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थलों पर मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम देश की आर्थिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है और यहां 250 से अधिक फॉर्च्यून-500 कंपनियां तथा अनेक यूनिकॉर्न स्थापित हैं। नयी मेट्रो परियोजना से

गुरुग्राम का देश और दुनिया से जुड़ाव और मजबूत होगा तथा यह बल्कि विकास का प्रतीक बनेगी।

राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम मेट्रो रेल विस्तार परियोजना को शहर के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना यात्रियों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प उपलब्ध करायेंगे, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और टैफ़िक जाम की समस्या को कम करने में भी मददगार साबित होगी।

### स्वदेशी अभियान को नागपुर सम्मेलन में मिलेगी धार

**नई दिल्ली,एजेंसी।** लोकसभा सांसद एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (केट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना अब तेजी से साकार हो रहा है और अमेरिका की ओर से थोपा गया आयात शुल्क एक चुनौती नहीं बल्कि अवसर है। खंडेलवाल ने शुक्रवार को यहां कॉस्टीट्यूशन क्लब में कहा कि व्यापारी वर्ग यह प्रण लेता है कि हर दुकान, हर बाजार, हर रेहड़ी पर स्वदेशी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

<p><b>Morning Glory Leasing &amp; Finance Limited</b></p> <p><b>Regd. Off:</b> IRIS House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi- 110046</p> <p><b>CIN:</b> L67120DL1984PLC018872 <b>Tel. No.:</b> +91 11 47119100</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:morninggloryleasing@gmail.com">morninggloryleasing@gmail.com</a>, <b>Website:</b> <a href="http://www.morninggloryleasing.in">www.morninggloryleasing.in</a></p> <p><b>NOTICE</b></p> <p>NOTICE is hereby given that the 41<sup>st</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of Morning Glory Leasing and Finance Limited will be held on Tuesday, the 30<sup>th</sup> day of September, 2025 at 11:00 A.M. at its registered office at IRIS House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi – 110046.</p> <p>Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 23<sup>rd</sup> September, 2025 (i.e. Cut-off date) may cast their vote electronically on the Business as set out in the Notice of the 41<sup>st</sup> AGM through Remote E-voting services provided by National Securities Depository Ltd (NSDL). All the members are informed that:</p> <p>a) Notice of 41<sup>st</sup> AGM along with Annual Report for the FY 2024-25 has been sent to all the members in Physical form on their registered address through permissible mode.</p> <p>b) The remote e-voting shall commence on 27<sup>th</sup> September, 2025 (09:00 a.m. IST) and end on 28<sup>th</sup> September, 2025 (05:00 p.m. IST).</p> <p>c) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 23<sup>rd</sup> September, 2025, may obtain the login Id and password by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a> or <a href="mailto:bsndelhi@bngishareonline.com">bsndelhi@bngishareonline.com</a>.</p> <p>d) The facility for voting through Ballot Paper/Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot paper/Polling Paper.</p> <p>e) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.</p> <p>f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Ballot paper/Polling Paper.</p> <p>g) A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.</p> <p>h) The Notice of 41<sup>st</sup> AGM is available on the Company's website <a href="http://www.morninggloryleasing.in">www.morninggloryleasing.in</a> and also on the NSDL's website <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>.</p> <p>The Board of Directors of the Company appointed Mr. Vimal Chadha, Company Secretary in whole time practice (Membership No. FCS 5758; COP No. 18669), as Scrutinizer to Scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.</p> <p>In case of any queries members may contact the undersigned at +91 11 47119100 and may also write to the undersigned at <a href="mailto:morninggloryleasing@gmail.com">morninggloryleasing@gmail.com</a> or at the Registered office address at IRIS House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi- 110046.</p> <p><b>For Morning Glory Leasing &amp; Finance Limited</b> <b>Sd/-</b> <b>Raman Kumar</b> <b>Company Secretary cum Compliance Officer</b></p> <p><b>Date: 05.09.2025</b> <b>Place: New Delhi</b></p>	<p><b>FORTUNE INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED</b></p> <p><b>CIN:</b> L51503DL1986PLC024329</p> <p><b>Regd. Office:-</b> 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001</p> <p><b>Tel. No.:</b> 011-43585000, <b>Fax:</b> 011-43585015,</p> <p><b>E-mail:</b> <a href="mailto:frl.nbfco@gmail.com">frl.nbfco@gmail.com</a>, <b>Website:</b> <a href="http://www.firl.co.in">www.firl.co.in</a></p> <p><b>INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 39<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING</b></p> <p>Notice is hereby given that the <b>39<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM")</b> of the Members of Fortune Industrial Resources Limited will be held on <b>Sunday, September 28, 2025 at 11:00 a.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")</b> to transact the businesses as stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 2024-25 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM alongwith the aforesaid Annual Report on September 5<sup>th</sup>, 2025.</p> <p>The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (in respect of shares held in demat form) or with Mas Services Limited, Registrar &amp; Share Transfer Agent (RTA) of the Company (in respect of shares held in physical form).</p> <p>Members are hereby informed that the notice of the 39<sup>th</sup> AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website (<a href="http://www.firl.co.in">www.firl.co.in</a>). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>.</p> <p>Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the relevant rules made thereunder, as amended from time to time, along with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the aforesaid Circulars, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast their votes electronically on the resolutions to be passed at the 39<sup>th</sup> AGM. The Members are further informed that the cut-off date for the purpose of ascertaining the members eligible for e-voting facility has been fixed as Sunday, September 21, 2025. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM.</p> <p>The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Thursday, September 25, 2025 at 9:00 a.m. and will remain open upto Saturday, September 27, 2025 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/ she/ it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again during AGM.</p> <p>The Company has appointed Mr. Vimal Chadha (Membership No. F5758, C.P.No. 18669), Practicing Company Secretary, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.</p> <p>The detailed procedure/ instructions for remote e-voting, attending AGM and e-voting during AGM are contained in the Notice of 39<sup>th</sup> AGM.</p> <p>The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the e-voting website of NSDL- <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of <a href="http://www.evoting.nsdl.com"></a></p>
---	---